

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ द्वारा थाना सहसवान का वार्षिक निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में

आज दिनांक 06-12-2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० ओ०पी० सिंह जनपद बदायूँ द्वारा थाना सहसवान का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक सहसवान विशाल प्रताप सिंह थाना कार्यालय पर मौजूद मिले। दिवसाधिकारी उ०नि० श्री जगवीर सिंह, सीसीटीएनएस पर कम्प्यूटर ऑपरेटर इकवाल अहमद तथा क० आ० कपिल, थाना कार्यलेख पर का० 285 धर्मवीर, महिला हेल्प डेस्क पर म०कां० 1469 निशा व संतरी पहरा ड्यूटी पर का० 827 आलोक बाबर्दी दुर्रुस्त मौजूद मिले। सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालग्रह, बैरक, आदि का मुआयना किया गया। बैरक का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना पर आगन्तुको के लिये उचित व्यवस्था एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। महिला हेल्प डेस्क अभिलेख को चैक किया गया तथा गहनता से जांचा परखा गया जिसमें आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम, पता, मो०नं० एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या का निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने के संबंध में जानकारी दी गयी एवं इसी प्रकार कम्प्यूटर में भी उल्लेख किया जाये। थाने पर समस्त अधि०/कर्म०गण को सीसीटीएनएस के प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। थाने के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए समस्त अभिलेखों के बेहतर रख-रखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा बताया कि आगामी नगर चुनाव के दृष्टिगत समस्त कर्म०गण की मीटिंग कर ड्यूटी के दौरान बाजार, सर्राफा दुकान, चोराहों गली नुक्कड़ों आदि पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाये रखने एवं नियमित रूप से बैंक चैकिंग, एटीएम चैकिंग, मुख्य चौराहों/ मुख्य सड़क/ढाबों/ होटल/ बस स्टैंड/पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चैकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ।